

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.11.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 23.11.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं संलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश आदि की कार्यवाही करने हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्टों, देवारा क्षेत्रों एवं संभावित स्थानों पर दबिश देकर मौके से कुल लगभग 08 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए कुल 01 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध 01 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा एक अदद वाहन पिकप बिना नम्बर प्लेट से 04 राशि गोवंशीय पशु के साथ 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 23.11.2021 को उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह मय टीम के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि वाहन चेकिंग के दौरान भलुअनी एक अदद वाहन पिकप बिना नम्बर प्लेट चेचिस न0 M012BYX00186 में 04 राशि गोवंशीय पशु गाय को क्रूरता पूर्वक लाद कर वध हेतु ले जाते समय मझौली राज कस्बा तिराहा के पकड़ लिया गया। बरामद गोवंशीय पशुओं व वाहन उपरोक्त को कब्जे में लेते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 1.इशराफिल पुत्र भरदुल सा0 बरईपार बाबू थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया 2.हरिकेश पुत्र पवन सा0 रघुनाथ थाना कोतवाली जनपद देवरिया बताया, उक्त के सम्बन्ध में थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 3/5ए /8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 23.11.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 01 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡ थाना-लार, मु0अ0सं0 122/2020 धारा-7/8 गोवध निवारण अधिनियम नाम पता अभियुक्त:- झामलाल पुत्र गप्फार सा0 बलुवन थाना खामपार देवरिया

04. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 23.11.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 29 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 23.11.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡वाहन चेकिंग के दौरान 63 वाहनों से 62,000 रुपये शमन शुल्क (ई-वालान) किया गया।

